

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 जुलाई 2010—आषाढ़ 10, शक 1932

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 मई 2010

क्र. 3212-फा.-1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय की सिफारिश से, एतद्वारा, घोषित करता है कि दिनांक 1 अगस्त, 2010 से मध्यप्रदेश राज्य, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित पचास सिविल जिलों में, विभाजित हो जाएगा, जिनमें प्रत्येक सिविल जिले के सामने उक्त सारणी के कालम (3) में यथादर्शित राजस्व जिले समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले (2)	राजस्व जिले (3)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर
2	अनूपपुर	अनूपपुर
3	अशोकनगर	अशोकनगर
4	बालाघाट	बालाघाट
5	बड़वानी	बड़वानी
6	बैतूल	बैतूल
7	भिण्ड	भिण्ड
8	भोपाल	भोपाल
9	बुरहानपुर	बुरहानपुर
10	छतरपुर	छतरपुर
11	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा

(1)	(2)	(3)
12	दमोह	दमोह
13	दतिया	दतिया
14	देवास	देवास
15	धार	धार
16	डिण्डोरी	डिण्डोरी
17	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)
18	गुना	गुना
19	ग्वालियर	ग्वालियर
20	हरदा	हरदा
21	होशंगाबाद	होशंगाबाद
22	इन्दौर	इन्दौर
23	जबलपुर	जबलपुर
24	झाबुआ	झाबुआ
25	कटनी	कटनी
26	मण्डला	मण्डला
27	मंदसौर	मंदसौर
28	मुरैना	मुरैना
29	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
30	नीमच	नीमच
31	पन्ना	पन्ना
32	रायसेन	रायसेन
33	राजगढ़	राजगढ़ "सारंगपुर तहसील छोड़कर"
34	रतलाम	रतलाम
35	रीवा	रीवा
36	सागर	सागर
37	सतना	सतना
38	सीहोर	सीहोर
39	सिवनी	सिवनी
40	शहडोल	शहडोल
41	शाजापुर	शाजापुर एवं राजगढ़ राजस्व जिले की तहसील सारंगपुर
42	श्योपुर	श्योपुर
43	शिवपुरी	शिवपुरी
44	सीधी	सीधी
45	सिंगरौली	सिंगरौली मुख्यालय बैदन
46	टीकमगढ़	टीकमगढ़
47	उज्जैन	उज्जैन
48	उमरिया	उमरिया
49	विदिशा	विदिशा
50	पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर)	पश्चिम निमाड़ (खरगोन)

No. 3212-F-1-2-2010-XXI-B-(One).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government on the recommendation of the High Court, hereby, declares that with effect from the 1st August, 2010 the State of Madhya Pradesh shall stand divided into the following fifty Civil districts as specified in column (2) of the Table below comprising the revenue districts as shown in column (3) of the said Table against each civil district, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Civil Districts (2)	Revenue Districts (3)
1	Alirajpur	Alirajpur
2	Anuppur	Anuppur
3	Ashoknagar	Ashoknagar
4	Balaghat	Balaghat
5	Barwani	Barwani
6	Betul	Betul
7	Bhind	Bhind
8	Bhopal	Bhopal
9	Burhanpur	Burhanpur
10	Chhatarpur	Chhatarpur
11	Chhindwara	Chhindwara
12	Damoh	Damoh
13	Datia	Datia
14	Dewas	Dewas
15	Dhar	Dhar
16	Dindori	Dindori
17	East. Nimar. (Khandwa)	East. Nimar. (Khandwa)
18	Guna	Guna
19	Gwalior	Gwalior
20	Harda	Harda
21	Hoshangabad	Hoshangabad
22	Indore	Indore
23	Jabalpur	Jabalpur
24	Jhabua	Jhabua
25	Katni	Katni
26	Mandla	Mandla
27	Mandsaur	Mandsaur
28	Morena	Morena
29	Narsinghpur	Narsinghpur
30	Neemuch	Neemuch
31	Panna	Panna
32	Raisen	Raisen
33	Rajgarh	Rajgarh except Sarangpur Tahsil
34	Ratlam	Ratlam
35	Rewa	Rewa
36	Sagar	Sagar
37	Satna	Satna
38	Sehore	Sehore
39	Seoni	Seoni
40	Shahdol	Shahdol
41	Shajapur	Shajapur and Sarangpur Tahsil of Rajgarh Revenue District

(1)	(2)	(3)
42	Sheopur	Sheopur
43	Shivpuri	Shivpuri
44	Sidhi	Sidhi
45	Singrauli	Singrauli Head Quarter Waidhan
46	Tikamgarh	Tikamgarh
47	Ujjain	Ujjain
48	Umaria	Umaria
49	Vidisha	Vidisha
50	West Nimar (Mandleshwar)	West Nimar (Khargone)

क्र. 3213-फा.-1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3212-फा.-1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक) दिनांक 26 मई, 2010 द्वारा गठित निम्नलिखित प्रत्येक सिविल जिले के लिये एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय दिनांक 1 अगस्त, 2010 से स्थापित करता है, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले (2)
1	अलीराजपुर
2	अनूपपुर
3	अशोकनगर
4	बालाघाट
5	बड़वानी
6	बैतूल
7	भिण्ड
8	भोपाल
9	बुरहानपुर
10	छतरपुर
11	छिन्दवाड़ा
12	दमोह
13	दतिया
14	देवास
15	धार
16	डिण्डोरी
17	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)
18	गुना
19	ग्वालियर
20	हरदा
21	होशंगाबाद
22	इन्दौर
23	जबलपुर

(1)	(2)
24	झाबुआ
25	कटनी
26	मण्डला
27	मंदसौर
28	मुरैना
29	नरसिंहपुर
30	नीमच
31	पन्ना
32	रायसेन
33	राजगढ़
34	रतलाम
35	रीवा
36	सागर
37	सतना
38	सीहोर
39	सिवनी
40	शहडोल
41	शाजापुर
42	श्योपुर
43	शिवपुरी
44	सीधी
45	सिंगरौली
46	टीकमगढ़
47	उज्जैन
48	उमरिया
49	विदिशा
50	पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर)

No. 3213-F-1-2-2010-XXI-B.—(One).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, hereby establishes with effect from the 1st August, 2010 a Court of District Judge for each of the following Civil Districts constituted *Vide* Law & Legislative Affairs Department's Notification No. 3212-F-1-2-2010-XXI-B (One) dated 26th May 2010 namely:—

TABLE

S. No. (1)	Civil Districts (2)
1	Alirajpur
2	Anuppur
3	Ashoknagar
4	Balaghat
5	Barwani

(1)	(2)
6	Betul
7	Bhind
8	Bhopal
9	Burhanpur
10	Chhatarpur
11	Chhindwara
12	Damoh
13	Datia
14	Dewas
15	Dhar
16	Dindori
17	East. Nimar. (Khandwa)
18	Guna
19	Gwalior
20	Harda
21	Hoshangabad
22	Indore
23	Jabalpur
24	Jhabua
25	Katni
26	Mandla
27	Mandsaur
28	Morena
29	Narsinghpur
30	Neemuch
31	Panna
32	Raisen
33	Rajgarh
34	Ratlam
35	Rewa
36	Sagar
37	Satna
38	Sehore
39	Seoni
40	Shahdol
41	Shajapur
42	Sheopur
43	Shivpuri
44	Sidhi
45	Singrauli
46	Tikamgarh
47	Ujjain
48	Umaria
49	Vidisha
50	West Nimar (Mandleshwar)

क्र. 3214-फा.-1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को

अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, दिनांक 1 अगस्त, 2010 से मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक सिविल जिलों में अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय स्थापित करता है, जो कि नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिलों के सामने विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या		
		अपर जिला न्यायाधीश	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1	सिविल न्यायाधीश वर्ग-2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अलीराजपुर	3	2	2
2	अनूपपुर	1	2	4
3	अशोकनगर	3	4	4
4	बालाघाट	4	4	9
5	बड़वानी	4	5	5
6	बैतूल	5	7	9
7	भिण्ड	7	6	9
8	भोपाल	14	22	29
9	बुरहानपुर	1	3	3
10	छतरपुर	6	9	13
11	छिन्दवाड़ा	5	8	14
12	दमोह	3	3	8
13	दतिया	2	4	3
14	देवास	7	7	9
15	धार	6	8	9
16	डिन्डोरी	0	2	1
17	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)	3	5	6
18	गुना	4	7	6
19	ग्वालियर	15	14	18
20	हरदा	1	2	3
21	होशंगाबाद	6	6	8
22	इंदौर	25	38	51
23	जबलपुर	18	17	25
24	झाबुआ	1	3	5
25	कटनी	2	5	6
26	मण्डला	2	3	6
27	मंदसौर	7	7	9
28	मुरैना	8	6	11
29	नरसिंहपुर	4	2	6
30	नीमच	2	5	7
31	पन्ना	2	1	6
32	रायसेन	4	5	9
33	राजगढ़	4	5	8
34	रतलाम	5	6	12
35	रीवा	8	9	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	सागर	11	14	17
37	सतना	8	11	16
38	सीहोर	6	3	10
39	सिवनी	4	4	5
40	शहडोल	3	3	10
41	शाजापुर	5	5	10
42	श्यामपुर	1	2	4
43	शिवपुरी	5	5	11
44	सीधी	2	6	8
45	सिंगरौली	1	3	7
46	टीकमगढ़	3	6	8
47	उज्जैन	11	11	17
48	उमरिया	1	2	4
49	बिदिशा	6	6	10
50	पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर)	6	7	12

No. 3214-F-1-2-2010 XXI-B.—(One).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, hereby establishes with effect from 1st August, 2010 the Courts of Additional district Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II in each Civil Districts of the State of Madhya Pradesh as specified against each Civil Districts in the Table below, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Number of Courts of		
		Addl. Distt. Judges	Civil Judges Class-I	Civil Judges Class-II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Alirajpur	3	2	2
2	Anuppur	1	2	4
3	Ashoknagar	3	4	4
4	Balaghat	4	4	9
5	Barwani	4	5	5
6	Betul	5	7	9
7	Bhind	7	6	9
8	Bhopal	14	22	29
9	Burhanpur	1	3	3
10	Chhatarpur	6	9	13
11	Chhindwara	5	8	14
12	Damoh	3	3	8
13	Datia	2	4	3
14	Dewas	7	7	9
15	Dhar	6	8	9
16	Dindori	0	2	1
17	East Nimar (Khandwa)	3	5	6
18	Guna	4	7	6
19	Gwalior	15	14	18
20	Harda	1	2	3



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Hoshangabad	6	6	8
22	Indore	25	38	51
23	Jabalpur	18	17	25
24	Jhabua	1	3	5
25	Katni	2	5	6
26	Mandla	2	3	6
27	Mandsaur	7	7	9
28	Morena	8	6	11
29	Narsinghpur	4	2	6
30	Neemuch	2	5	7
31	Panna	2	1	6
32	Raisen	4	5	9
33	Rajgarh	4	5	8
34	Ratlam	5	6	12
35	Rewa	8	9	16
36	Sagar	11	14	17
37	Satna	8	11	16
38	Sehore	6	3	10
39	Seoni	4	4	5
40	Shahdol	3	3	10
41	Shajapur	5	5	10
42	Sheopur	1	2	4
43	Shivpuri	5	5	11
44	Sidhi	2	6	8
45	Singrauli	1	3	7
46	Tikamgarh	3	6	8
47	Ujjain	11	11	17
48	Umaria	1	2	4
49	Vidisha	6	6	10
50	West Nimar (Mandleshwar)	6	7	12

क्र. 3215-फा.-1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 7 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा, दिनांक 1 अगस्त, 2010 से मध्यप्रदेश राज्य को नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित सेशन खण्डों में विभाजित करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सेशन खण्ड (2)	सेशन खण्डों में सम्मिलित राजस्व जिले (3)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर
2	अनूपपुर	अनूपपुर
3	अशोकनगर	अशोकनगर
4	बालाघाट	बालाघाट
5	बड़वानी	बड़वानी
6	बैतूल	बैतूल
7	भिण्ड	भिण्ड
8	भोपाल	भोपाल

(1)	(2)	(3)
9	बुरहानपुर	बुरहानपुर
10	छतरपुर	छतरपुर
11	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
12	दमोह	दमोह
13	दतिया	दतिया
14	देवास	देवास
15	धार	धार
16	डिन्डोरी	डिन्डोरी
17	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)
18	गुना	गुना
19	ग्वालियर	ग्वालियर
20	हरदा	हरदा
21	होशंगाबाद	होशंगाबाद
22	इंदौर	इंदौर
23	जबलपुर	जबलपुर
24	झाबुआ	झाबुआ
25	कटनी	कटनी
26	मण्डला	मण्डला
27	मंदसौर	मंदसौर
28	मुरैना	मुरैना
29	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
30	नीमच	नीमच
31	पन्ना	पन्ना
32	रायसेन	रायसेन
33	राजगढ़	राजगढ़ "सारंगपुर" तहसील छोड़कर
34	रतलाम	रतलाम
35	रीवा	रीवा
36	सागर	सागर
37	सतना	सतना
38	सीहोर	सीहोर
39	सिवनी	सिवनी
40	शहडोल	शहडोल
41	शाजापुर	शाजापुर तथा राजगढ़ राजस्व जिले की तहसील सारंगपुर
42	श्योपुर	श्योपुर
43	शिवपुरी	शिवपुरी
44	सीधी	सीधी
45	सिंगरौली	सिंगरौली मुख्यालय बैदन
46	टीकमगढ़	टीकमगढ़
47	उज्जैन	उज्जैन
48	उमरिया	उमरिया
49	विदिशा	विदिशा
50	पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर)	पश्चिम निमाड़ (खरगौन)

No. 3215-F-1-2-2010 XXI-B.—(One).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (NO. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, after consultation with the High Court, hereby, divides the State of Madhya Pradesh into the following sessions Divisions as specified in the Table below with effect from 1st August, 2010 namely:—

TABLE

S. No. (1)	Sessions Divisions (2)	Revenue Districts Included in Sessions Divisions (3)
1	Alirajpur	Alirajpur
2	Anuppur	Anuppur
3	Ashoknagar	Ashoknagar
4	Balaghat	Balaghat
5	Barwani	Barwani
6	Betul	Betul
7	Bhind	Bhind
8	Bhopal	Bhopal
9	Burhanpur	Burhanpur
10	Chhatarpur	Chhatarpur
11	Chhindwara	Chhindwara
12	Damoh	Damoh
13	Datia	Datia
14	Dewas	Dewas
15	Dhar	Dhar
16	Dindori	Dindori
17	East Nimar (Khandwa)	East Nimar (Khandwa)
18	Guna	Guna
19	Gwalior	Gwalior
20	Harda	Harda
21	Hoshangabad	Hoshangabad
22	Indore	Indore
23	Jabalpur	Jabalpur
24	Jhabua	Jhabua
25	Katni	Katni
26	Mandla	Mandla
27	Mandsaur	Mandsaur
28	Morena	Morena
29	Narsinghpur	Narsinghpur
30	Neemuch	Neemuch
31	Panna	Panna
32	Raisen	Raisen
33	Rajgarh	Rajgarh except Sarangpur Tahsil,
34	Ratlam	Ratlam
35	Rewa	Rewa
36	Sagar	Sagar
37	Satna	Satna
38	Sehore	Sehore
39	Seoni	Seoni
40	Shahdol	Shahdol
41	Shajapur	Shajapur and Sarangpur Tahsil of Rajgarh Revenue District
42	Sheopur	Sheopur
43	Shivpuri	Shivpuri

(1)	(2)	(3)
44	Sidhi	Sidhi
45	Singrauli	Singrauli Head quarter Waidhan
46	Tikamgarh	Tikamgarh
47	Ujjain	Ujjain
48	Umaria	Umaria
49	Vidisha	Vidisha
50	West Nimar (Mandleshwar)	West Nimar (Khargone)

क्र. 3216-फा.-1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3215 फा. 1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 26 मई 2010 द्वारा गठित प्रत्येक सेशन खण्ड के लिये, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, सेशन न्यायालय स्थापित करता है, अर्थात् :-

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	सेशन खण्ड (2)
1	अलीराजपुर
2	अनूपपुर
3	अशोकनगर
4	बालाघाट
5	बड़वानी
6	बैतूल
7	भिण्ड
8	भोपाल
9	बुरहानपुर
10	छतरपुर
11	छिन्दवाड़ा
12	दमोह
13	दतिया
14	देवास
15	धार
16	डिण्डोरी
17	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)
18	गुना
19	ग्वालियर
20	हरदा
21	होशंगाबाद
22	इन्दौर
23	जबलपुर
24	झाबुआ
25	कटनी

(1)	(2)
26	मण्डला
27	मंदसौर
28	मुरैना
29	नरसिंहपुर
30	नीमच
31	पन्ना
32	रायसेन
33	राजगढ़
34	रतलाम
35	रीवा
36	सागर
37	सतना
38	सीहोर
39	सिवनी
40	शहडोल
41	शाजापुर
42	श्योपुर
43	शिवपुरी
44	सीधी
45	सिंगरौली मुख्यालय बैदन
46	टीकमगढ़
47	उज्जैन
48	उमरिया
49	विदिशा
50	पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर)

No. 3216-F-1-2-2010 XXI-B.—(One).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, hereby establish a Court of Session for every Sessions Division constituted by Notification No. 3215-F-1-2-2010-XXI-B (One) dated 26th May 2010 of the Law & Legislative Affairs Department as specified in the table below, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Sessions Divisions (2)
1	Alirajpur
2	Anuppur
3	Ashoknagar
4	Balaghat
5	Barwani
6	Betul
7	Bhind
8	Bhopal

(1)	(2)
9	Burhanpur
10	Chhatarpur
11	Chhindwara
12	Damoh
13	
14	Dewas
15	Dhar
16	Dindori
17	East. Nimar. (Khandwa)
18	Guna
19	Gwalior
20	Harda
21	Hoshangabad
22	Indore
23	Jabalpur
24	Jhabua
25	Katni
26	Mandla
27	Mandsaur
28	Morena
29	Narsinghpur
30	Neemuch
31	Panna
32	Raisen
33	Rajgarh
34	Ratlam
35	Rewa
36	Sagar
37	Satna
38	Sehore
39	Seoni
40	Shahdol
41	Shajapur
42	Sheopur
43	Shivpuri
44	Sidhi
45	Singrauli Head Quarter Waidhan
46	Tikamgarh
47	Ujjain
48	Umaria
49	Vidisha
50	West Nimar (Mandleshwar)

क्र. 3217-फा.-1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, दिनांक 1 अगस्त, 2010 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक जिले में,

उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायालय स्थापित करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	राजस्व जिले का नाम	स्थान का नाम	न्यायालयों की संख्या	
			न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	2	—
		जोबट	2	—
2	अनूपपुर	अनूपपुर	2	—
		कोतमा	3	—
		राजेन्द्रग्राम	1	—
3	अशोकनगर	अशोकनगर	4	—
		मुंगावली	2	—
		चंदेरी	2	—
4	बालाघाट	बालाघाट	7	2
		वारासिवनी	3	—
		बैहर	2	—
		कटंगी	1	—
5	बड़वानी	बड़वानी	4	—
		सेंधवा	2	—
		राजपुर	2	—
		अंजड	1	—
		खेतिया	1	—
6	बैतूल	बैतूल	8	1
		मुलताई	4	—
		भैंसदेही	2	—
		आमला	2	—
7	भिण्ड	भिण्ड	6	2
		लहार	4	—
		गोहद	3	—
		मेहगांव	2	—
		भोपाल	48	3
8	भोपाल	बैरसिया	3	—
		बुरहानपुर	6	—
9	बुरहानपुर	6	—	
10	छतरपुर	छतरपुर	6	1
		नौगांव	5	—
		बिजावर	5	—
		लौण्डी	5	—
		राजनगर	1	—
		छिन्दवाड़ा	13	2
11	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	2	—
		सौंसर	2	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		पांडुर्णा	2	—
		परासिया	1	—
		जुन्नारदेव (जामई)	1	—
		चौरई	1	—
12	दमोह	दमोह	8	2
		हटा	3	—
13	दतिया	दतिया	4	1
		सेवढ़ा	2	—
		भाण्डेर	1	—
14	देवास	देवास	6	2
		कन्नौद	2	—
		सोनकच्छ	2	—
		बागली	2	—
		खातेगांव	3	—
		टोंकरखुर्द	1	—
15	धार	धार	6	2
		कुक्षी	2	—
		मनावर	2	—
		सरदारपुर	2	—
		बदनावर	3	—
		धरमपुरी	2	—
16	डिण्डोरी	डिण्डोरी	3	—
17	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)	खण्डवा	9	2
		हरसूद	2	—
18	गुना	गुना	7	3
		चाचौड़ा	2	—
		राघोगढ़	2	—
		आरोन	1	—
		कुंभराज	1	—
19	ग्वालियर	ग्वालियर	25	3
		डबरा	5	—
		भितरवार	2	—
20	हरदा	हरदा	5	—
21	होशंगाबाद	होशंगाबाद	4	2
		सोहागपुर	2	—
		पिपरिया	2	—
		इटारसी	3	—
		सिवनी मालवा	2	—
		पचमढ़ी	1	—
22	इंदौर	इंदौर	76	5
		मऊ	6	—
		सांवेर	3	—



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		देपालपुर	3	—
		हातोद	1	—
23	जबलपुर	जबलपुर	36	4
		सिहोरा	4	—
		पाटन	2	—
24	झाबुआ	झाबुआ	4	2
		थांदला	2	—
		पेटलावद	2	—
25	कटनी	कटनी	9	—
		विजयराघवगढ़	2	—
26	मण्डला	मण्डला	6	1
		निवास	2	—
		नैनपुर	1	—
27	मंदसौर	मंदसौर	7	2
		गरोठ	2	—
		भानपुरा	2	—
		सीतामऊ	2	—
		नारायणगढ़	3	—
28	मुरैना	मुरैना	8	2
		सबलगढ़	3	—
		जौरा	3	—
		अम्बाह	3	—
29	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	5	1
		गाडरवारा	3	—
30	नीमच	नीमच	6	—
		मनासा	3	—
		जावद	3	—
31	पन्ना	पन्ना	5	1
		पवई	1	—
		अजयगढ़	1	—
32	रायसेन	रायसेन	4	1
		बेगमगंज	2	—
		बरेली	2	—
		गोहरगंज	3	—
		गैरतगंज	1	—
		सिलवानी	1	—
		उदयपुरा	1	—
33	राजगढ़	राजगढ़	3	2
		ब्यावरा	3	—
		नरसिंहगढ़	3	—
		खिलचीपुर	2	—
		जीरापुर	2	—
34	रतलाम	रतलाम	10	2
		जावरा	4	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		सैलाना	2	—
		आलोट	2	—
35	रीवा	रीवा	12	3
		मऊगंज	7	—
		त्योथर	2	—
		सिरमोर	3	—
		हनुमना	1	—
36	सागर	सागर	16	3
		खुरई	4	—
		रेहली	2	—
		देवरी	2	—
		बण्डा	4	—
		बीना	2	—
		गढ़ाकोटा	1	—
37	सतना	सतना	16	2
		मैहर	3	—
		नागोद	4	—
		अमरपाटन	3	—
		रामपुरबघेलान	1	—
38	सीहोर	सीहोर	7	2
		आष्टा	3	—
		नसरूल्लागंज	1	—
		बुधनी	1	—
		इछावर	1	—
39	सिवनी	सिवनी	7	1
		लखनादौन	2	—
40	शहडोल	शहडोल	6	3
		ब्यौहारी	2	—
		बुढ़ार	3	—
		जयसिंहनगर	2	—
41	शाजापुर	शाजापुर	4	2
		शुजालपुर	3	—
		आगर	3	—
		सुसनेर	2	—
		सारंगपुर	2	—
		नलखेड़ा	1	—
42	श्योपुर	श्योपुर	5	—
		विजयपुर	1	—
43	शिवपुरी	शिवपुरी	4	2
		करेरा	3	—
		पिछोर	3	—
		कोलागल	3	—
		पोहरी	2	—
		खनियाधाना	1	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	सीधी	सीधी	7	1
		चुरहट	5	—
		मझौली	2	—
45	सिंगरौली	बैढ़न	7	—
		देवसर	3	—
46	टीकमगढ़	टीकमगढ़	8	1
		जतारा	2	—
		निवाड़ी	2	—
		ओरछा	2	—
47	उज्जैन	उज्जैन	14	3
		खाचरौद	2	—
		महिदपुर	3	—
		तराना	3	—
		बड़नगर	3	—
		नागदा	3	—
48	उमरिया	उमरिया	4	—
		बिरसिंहपुरपाली	1	—
		मानपुर	1	—
49	विदिशा	विदिशा	7	2
		बासौदा	4	—
		सिरोंज	2	—
		कुरवाई	2	—
		लटेरी	1	—
50	पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर)	मण्डलेश्वर	3	2
		खरगोन	7	—
		बड़वाह	3	—
		भीकनगांव	2	—
		कसरावद	2	—
		महेश्वर	1	—
		सनावद	1	—

No. 3217-F-1-2-2010-XXI-B.—(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Code Of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, after consultation with the High Court, hereby establishes with effect from the 1st August, 2010 the Courts of Judicial magistrates of first class and second class in each District, at the places specified against it, in the Table below, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Revenue District	Name of the Places	Number of Courts	
			Judicial Magistrates First class	Judicial Magistrates Second class
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Alirajpur	Alirajpur	2	—
		Jobat	2	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Anuppur	Anuppur	2	—
		Kotma	3	—
		Rajendragram	1	—
3	Ashoknagar	Ashoknagar	4	—
		Mungaoli	2	—
		Chanderi	2	—
4	Balaghat	Balaghat	7	2
		Waraseoni	3	—
		Baihar	2	—
		Katangi	1	—
5	Barwani	Barwani	4	—
		Sendhwa	2	—
		Rajpur	2	—
		Anjad	1	—
		Khetia	1	—
6	Betul	Betul	8	1
		Multai	4	—
		Bhainsdehi	2	—
		Amla	2	—
7	Bhind	Bhind	6	2
		Lahar	4	—
		Gohad	3	—
		Mehgaon	2	—
8	Bhopal	Bhopal	48	3
		Berasia	3	—
9	Burhanpur	Burhanpur	6	—
10	Chhatarpur	Chhatarpur	6	1
		Nowgaon	5	—
		Bijawar	5	—
		Laundi	5	—
		Rajnagar	1	—
		Chhindwara	13	2
		Amarwara	2	—
Sausar	2	—		
11	Chhindwara	Pandurna	2	—
		Parasia	1	—
		Junnardev (Jamai)	1	—
		Chourai	1	—
		Damoh	8	2
		Hata	3	—
		Datia	4	1
13	Datia	Seodha	2	—
		Bhander	1	—
		Dewas	6	2
		Kannod	2	—
		Sonkatch	2	—
14	Dewas	Bagli	2	—
		Khategaon	3	—
		Tonkkhurd	1	—
		Dhar	6	2
		Kukshi	2	—
		Manawar	2	—
15	Dhar	Dhar	6	2
		Kukshi	2	—
		Manawar	2	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sardarpur	2	—
		Badnawar	3	—
		Dharampuri	2	—
16	Dindori	Dindori	3	—
17	E.N. (Khandwa)	Khandwa	9	2
		Harsood	2	—
18	Guna	Guna	7	3
		Chachoda	2	—
		Raghogarh	2	—
		Aron	1	—
		Kumbhraj	1	—
19	Gwalior	Gwalior	25	3
		Dabra	5	—
		Bhitarwar	2	—
20	Harda	Harda	5	—
21	Hoshangabad	Hoshangabad	4	2
		Sohagpur	2	—
		Pipariya	2	—
		Itarsi	3	—
		Seoni Malwa	2	—
		Pachmadi	1	—
22	Indore	Indore	76	5
		Mhow	6	—
		Sanwer	3	—
		Depalpur	3	—
		Hatod	1	—
23	Jabalpur	Jabalpur	36	4
		Sihora	4	—
		Patan	2	—
24	Jhabua	Jhabua	4	2
		Thandla	2	—
		Petlawad	2	—
25	Katni	Katni	9	—
		Vijayaraghavgarh	2	—
26	Mandla	Mandla	6	1
		Niwas	2	—
		Nainpur	1	—
27	Mandsaur	Mandsaur	7	2
		Garoth	2	—
		Bhanpura	2	—
		Sitamau	2	—
		Narayangarh	3	—
28	Morena	Morena	8	2
		Sabalgarh	3	—
		Jora	3	—
		Ambah	3	—
29	Narsinghpur	Narsinghpur	5	1
		Gadarwara	3	—
30	Neemuch	Neemuch	6	—
		Manasa	3	—
		Jawad	3	—
31	Panna	Panna	5	1
		Pawai	1	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	Raisen	Ajaygarh	1	—
		Raisen	4	1
		Begamganj	2	—
		Berali	2	—
		Goharganj	3	—
		Gairatganj	1	—
		Silwani	1	—
		Udaypura	1	—
33	Rajgarh	Rajgarh	3	2
		Biaora	3	—
		Narsinghgarh	3	—
		Khilchipur	2	—
		Jeerapur	2	—
34	Ratlam	Ratlam	10	2
		Jaora	4	—
		Sailana	2	—
		Alot	2	—
35	Rewa	Rewa	12	3
		Mauganj	7	—
		Teonthar	2	—
		Sirmour	3	—
		Hanumana	1	—
36	Sagar	Sagar	16	3
		Khurai	4	—
		Rehli	2	—
		Deori	2	—
		Banda	4	—
		Bina	2	—
		Garhakota	1	—
37	Satna	Satna	16	2
		Maihar	3	—
		Nagod	4	—
		Amarpatan	3	—
		Rampur Baghelan	1	—
		Sehore	7	2
38	Sehore	Ashta	3	—
		Nasrullaganj	1	—
		Budhni	1	—
		Ichhawar	1	—
		Seoni	7	1
39	Seoni	lakhnadon	2	—
		Shahdol	6	3
40	Shahdol	Beohari	2	—
		Burhar	3	—
		Jaisinghnagar	2	—
41	Shajapur	Shajapur	4	2
		Sujalpur	3	—
		Agar	3	—
		Susner	2	—
		Sarangpur	2	—
		Nalkheda	1	—
42	Sheopur	Sheopur	5	—
		Vijaypur	1	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	Shivpuri	Shivpuri	4	2
		Kerera	3	—
		Pichore	3	—
		Kolaras	3	—
		Pohari	2	—
		Khaniadhana	1	—
44	Sidhi	Sidhi	7	1
		Churhat	5	—
		Majholi	2	—
45	Singrauli	Waidhan	7	—
		Deosar	3	—
46	Tikamgarh	Tikamgarh	8	1
		Jatara	2	—
		Niwari	2	—
		Orchha	2	—
		Ujjain	14	3
47	Ujjain	Khachrod	2	—
		Mahidpur	3	—
		Tarana	3	—
		Badnagar	3	—
		Nagda	3	—
		Umaria	4	—
		Birsinghpurpali	1	—
48	Umaria	Manpur	1	—
		Vidisha	7	2
49	Vidisha	Basoda	4	—
		Sironj	2	—
		Kurwai	2	—
		Lateri	1	—
		Mandleshwar	3	2
		Khargone	7	—
50	W. N. (Mandleshwar)	Barwaha	3	—
		Bhikangaon	2	—
		Kasrawad	2	—
		Maheshwar	1	—
		Sanawad	1	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.